



सत्यमेव जयते

I 14388/4
INDIA NON JUDICIAL





26/11/2020

Government of Uttar Pradesh


e-Stamp

Certificate No. : IN-UP14016566654208S
 Certificate Issued Date : 26-Nov-2020 04:50 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0121696719344880S
 Purchased by : ANURADHA SHUKLA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : PLOT NO. D-265 AND D-266, PART OF KHASRA NO.218 AND 219, VILL-TERRA KHAS, TEHSIL AND DISTT-LUCKNOW.
 Consideration Price (Rs.) : 36,30,000
 (Thirty Six Lakh Thirty Thousand only)
 First Party : ARSHA INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
 Second Party : ANURADHA SHUKLA
 Stamp Duty Paid By : ANURADHA SHUKLA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,45,000
 (Two Lakh Forty Five Thousand only)

35897




-----Please write or type below this line-----



For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla



0011523905

Statutory Alert.

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid. The responsibility is on the users of the certificate.

भारत सरकार
Government of India

आधार
Aadhaar

Download Date: 07/06/2020

Issue Date: 19/06/2020

अनुराधा शुकला
Anuradha Shukla
जन्म तिथि/DOB: 21/11/1985
लिंग/ GENDER: FEMALE

7859 2130 8716
VID: 9175 4411 4109 3650

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
C/O अमरेंद्र त्रिवेदी, एच. नं. 319, सिविल लाइन्स,
जुड़वात कालोनी के सामने डी एन आवास के पास, उन्नाव,
उत्तर प्रदेश - 209801

Address:
C/O Amarendra Tripathi, H. No. 319, Civil
Lines, Infront of Judges Colony Near D N
Awas, Unnao, Unnao
Uttar Pradesh - 209801

7859 2130 8716
VID: 9175 4411 4109 3650

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Anuradha Shukla

9899216681



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

ANURADHA SHUKLA

RAJARAM SHUKLA

21/11/1985

Permanent Account Number

FSIPS7840M

Anuradha Shukla
Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



22002014

Anuradha Shukla

989921668.1



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



अमरेन्द्र त्रिवेदी
Amarendra Trivedi
जन्म तिथि/ DOB: 28/01/1982
पुरुष / MALE



7537 0289 6790

मेरा आधार, मेरी पहचान

Handwritten signature and number: 8687247599



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:


S/O आनन्द शंकर त्रिवेदी,
३१९ सिविल लाइन्स, उन्नाव,
उन्नाव,
उत्तर प्रदेश - 209801



Address:

S/O Aanand Shankar Trivedi,
319 civil line, Unnao, Unnao,
Uttar Pradesh - 209801

7537 0289 6790

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN








रिकेश यादव
 Rikesh Yadav
 जन्म तिथि/DOB: 01/01/1986
 पुरुष / MALE
 6716 8847 8984

भेरा आधार, मेरी पदचान



रिकेश यादव
 8795832544

अधिकरण
 Address:
 S/O: सियाराम, कबीरपुर
 कबीरपुर, लखनऊ,
 उत्तर प्रदेश - 227125
 S/O: Siyaram, Kabil'pur, Kabil
 Dist. Lucknow
 Uttar Pradesh - 227125
 6716 8847 8984

विक्रय मूल्य	::	रु0 36,30,000/-
मालियत	::	रु0 17,99,256/-
स्टाम्प	::	रु0 2,45,000/-
परगना	::	लखनऊ

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना/वार्ड : लखनऊ
3. मोहल्ला/ग्राम : तेराखास, माधवग्रीन्स
विस्तार
(वी कोड नं0-1206)
4. सम्पत्ति का विवरण : भूखण्ड सं0-डी-265 व
डी-266 खसरा सं0-218 व
219 का मि0
5. मापन की इकाई : वर्ग मीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 224.907 वर्गमीटर
7. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय भूखण्ड
8. सड़क की स्थिति : मुख्य मार्ग फैजाबाद रोड व
निजामपुर मल्हौर लौलाई
मार्ग से 500 मीटर से
अधिक दूर।
9. अन्य विवरण : भूखण्ड 9 मीटर चौड़े मार्ग
व कार्नर पर स्थित नहीं है।
10. प्रतिफल की धनराशि : रु0 36,30,000/-

-:चौहद्दी भूखण्ड विक्रीशुदा:-

पूरब	:-	7.50 मीटर चौड़ी रोड
पश्चिम	:-	भूखण्ड सं0-डी-246 व डी-245 व डी-244
उत्तर	:-	भूखण्ड सं0-डी-264
दक्षिण	:-	भूखण्ड सं0-डी-267

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण-

आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट आई0डी0 नं0-
U45400UP2009 PTC038233-2009-2010 कार्यालय स्थित-
2/169, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री मथुरेश
श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रमा शंकर श्रीवास्तव द्वारा तस्दीकशुदा मुख्तार वीरेन्द्र
कुमार यादव पुत्र श्री रामनिवास।

पैन नं0-AAHCA9967C

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

श्रीमती अनुराधा शुक्ला पत्नी श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी निवासिनी- म0नं0-319,
सिविल लाइन्स, जज कालोनी के सामने डी0एम0 आवास के पास, उन्नाव,
उ0प्र0, हाल पता-सी-4, जज कम्पाउन्ड, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।
PAN-FSIPS7840M

विक्रय-विलेख

यह विक्रय-विलेख आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट
आई0डी0 नं0-U45400UP2009 PTC038233-2009-2010
कार्यालय स्थित-2/169, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा
डायरेक्टर श्री मथुरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रमा शंकर श्रीवास्तव द्वारा
तस्दीकशुदा मुख्तार वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री रामनिवास उक्त
तस्दीकशुदा मुख्तारनामा दिनांक-27.08.2014 को बही सं0-6, जिल्द
सं0-9, पृष्ठ सं0-177/182, क्रमांक-59 पर कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय
लखनऊ में पंजीकृत है जो आज तक विधिमान्य है निरस्त नहीं की गयी है।
(जिन्हे एतद्द्वारा विक्रेता कहा गया है और तात्पर्य जिसमें जब तक कि कोई
बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो उक्त विक्रेता, उसके विधिक प्रतिनिधि,
निष्पादक एवं प्रशासक से है, सम्मिलित है)

Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla

श्रीमती अनुराधा शुक्ला पत्नी श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी निवासिनी-
म0नं0-319, सिविल लाइन्स, जज कालोनी के सामने डी0एम0 आवास के
पास, उन्नाव, उ0प्र0, हाल पता-सी-4, जज कम्पाउन्ड, रिवर बैंक
कालोनी, लखनऊ (जिन्हे एतद्द्वारा क्रेता कहा गया है और तात्पर्य जिसमें
जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो उक्त क्रेता, उसके विधिक
प्रतिनिधि, निष्पादक एवं प्रशासक से है, सम्मिलित है)

जोकि विक्रेता द्वारा खसरा सं0-218 व 219, स्थित-ग्राम-
तेराखास, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ की भूमि को निम्नलिखित
विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया है:-

- अ. राम शरन उर्फ राम शरण पुत्र श्री ईश्वरदीन द्वारा निष्पादित विक्रय
विलेख दिनांक-21.10.2020 को बही सं0-1, जिल्द सं0-24111,
पृष्ठ सं0-169 से 188, क्रमांक-11460 पर उपनिबन्धक द्वितीय
लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है।
- ब. सर्वेश कुमारी पत्नी स्व0 सन्त राम द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख
दिनांक-28.10.2020 को बही सं0-1, जिल्द सं0-24167, पृष्ठ
सं0-75 से 92, क्रमांक-12252 पर उपनिबन्धक द्वितीय लखनऊ के
कार्यालय में पंजीकृत है।

जोकि उक्त खसरा की भूमि को क्रय करने के उपरान्त उसका
भू-उपयोग, धारा 80 ज0वि एवं भू0व्य0अधि0 के तहत कृषिक से
अकृषिक में परिवर्तित कराकर कई भूखण्डों में विभाजित किया गया है जो
कि वर्तमान में माघवग्रीन्स विस्तार के नाम से जाना जाता है।

जोकि इस प्रकार विक्रेता उक्त खसरा में विकसित भूखण्ड
सं0-डी-265 व डी-266 खसरा सं0-218 व 219, का मालिक कामिल व
काबिज है व उसे उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार
प्राप्त है।

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla

अब विक्रेता व क्रेता निम्न शर्तों के लिये पाबन्द होते हैं:-

1. यह कि विक्रेता ने उपरोक्त भूखण्ड सं०-डी-265 व डी-266, रकबा 2420 वर्गफिट अर्थात् 224.907 वर्गमीटर, खसरा सं०-218 व 219, स्थित- ग्राम-माधवग्रीन्स विस्तार राजस्व ग्राम- तेराखास, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ (जिसका विस्तृत विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है) को मुबलिग रू० 36,30,000/- (रू० छत्तीस लाख तीस हजार रुपया मात्र) जिसके आधे रू० 18,15,000/- (अठ्ठारह लाख पन्द्रह हजार रुपया मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता को, बच कतई किया यानी बेच दिया।
2. यह कि विक्रेता ने भूखण्ड का कुल विक्रय मूल्य अन्त में लिखे अनुसार, क्रेता से वसूल पाकर कब्जा कतई व दखल मालिकाना आज की तारीख से विक्रीशुदा भूखण्ड, रकबा उपरोक्त (जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है) पर क्रेता का बखूबी करा दिया।
3. यह कि अब विक्रेता का कोई भी दावा व हक़ बाबत विक्रीशुदा भूखण्ड व रकबा उपरोक्त एवं विक्रय धनराशि से शेष नहीं रहा।
4. यह कि यदि उक्त भूखण्ड के विक्रय उपरान्त अगर कोई शरूस्स दावा करे तो वह नाजायज़ होगा और किसी की दावेदारी, हक़दारी, उन्नदारी से विक्रीशुदा भूखण्ड का कुल भाग का कब्जा अथवा आंशिक भाग का कब्जा क्रेता के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये अथवा कहीं विक्रय, बंधक दान आदि पाया जाये तो ऐसी दशा में क्रेता को हक़ व अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय-मूल्य विक्रेता से वसूल कर लें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि विक्रीत भूखण्ड (जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है) कहीं किसी तौर से बच, बंधक, हिबा व जमानत वगैरह नहीं है और उक्त भूखण्ड को हस्तांतरित करने से विक्रेता को रोकना नहीं गया है।
6. यह कि विक्रीत भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम प्राधिकारी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है व उक्त भूखण्ड किसी भी न्यायालय द्वारा पारित डिग्री व अन्य किसी प्रकार के विवादों

For Arsha Intra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuraag Shukla

- से पूर्ण मुक्त है अतः विक्रेता को उक्त भूखण्ड का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है।
7. यह कि भूखण्ड विक्रीशुदा के कुल सरकारी देय वगैरह आज की तारीख तक विक्रेता द्वारा अदा किये जा चुके हैं। आज की तारीख के पश्चात क्रेता को अधिकार होगा कि वह भूखण्ड विक्रीशुदा के समस्त देय वगैरह अदा करे। इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 8. यह कि विक्रेता, क्रेता से प्रसंविदा करता है कि विक्रीशुदा भूखण्ड को पूर्ण स्वामी के रूप में, बिना किसी शर्त के हस्तक्षेप या रूकावट के उपयोग व उपभोग व हस्तान्तरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
 9. यह कि क्रेता, विक्रीत भूखण्ड पर ही निर्माण करेगा और किसी प्रकार का अतिक्रमण, भूखण्ड की सीमा के बाहर नहीं करेगा तथा क्रेता सोकपिट-टैन्क का निर्माण भी सीमा के अन्दर ही करेगा। भूखण्ड की सीमा के बाहर किया गया किसी भी प्रकार का निर्माण जैसे कि रैम्प इत्यादि का अनाधिकृत/अवैध होगा।
 10. यह कि इस विक्रय-विलेख की समस्त नियम व शर्तें, क्रेता के अन्तारिती तथा समय-समय पर जब भी भूखण्ड का अन्तरण होने पर सभी अन्तरिती पर यथावत् लागू होंगी तथा वे भी इन नियम व शर्तों से पाबन्द होंगे।
 11. यह कि भूखण्ड विक्रीशुदा के रख रखाव हेतु माधव ग्रीन रेजिडेन्ट्स वेल्फेयर सोसाइटी स्थापित है जिसका कि क्रेता को सदस्य बनना होगा एवं क्रय किये गये भूखण्ड के रख रखाव के लिए अनुपातिक भुगतान एक वर्ष का रजिस्ट्री के समय अग्रिम रूप से उक्त सोसाइटी को देना होगा।
 12. यह कि विक्रीत भूखण्ड का उपयोग पूर्ण रूप से आवासीय है और जिसे की क्रेता द्वारा किसी प्रकार से उसे व्यवसायिक उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
 13. यह कि उपरोक्त विक्रीतशुदा भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है और न ही कोई चहार दीवार निर्मित है।
 14. यह कि विक्रय किये जा रहे भूखण्ड का क्षेत्रफल 224.907 वर्ग मीटर है श्रीमान् जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित सर्किल रेट रु0 8,000/- प्रति वर्गमीटर की दर से भूखण्ड बयशुदा की कुल मालियत

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anurag Shukla

रु0 17,99,256/- होती है। विदित हो कि विक्रय मूल्य, मालियत से अधिक है इसलिए विक्रय मूल्य पर स्टाम्प देय है तथा क्रेता महिला है, इसलिए अधिसूचना आदेश सं0स0वि0क0नि0 -5- 2756/11-2008-500 (165)/ 2007, दिनांक 30/6/2008 के अनुसार शासन द्वारा छूट प्राप्त है। इसलिए मुबलिग रूपया 10,00,000/- पर 6 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क, व शेष विक्रय मूल्य पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क, इस प्रकार कुल स्टाम्प 2,45,000/- रुपये का स्टाम्प क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है।

विवरण बिक्रीशुदा सम्पत्ति

भूखण्ड सं0-डी-265 व डी-266 रकबा 2420 वर्गफिट अर्थात 224.907 वर्गमीटर, खसरा सं0-218 व 219, स्थित- ग्राम- माधवग्रीन्स विस्तार राजस्व ग्राम-तेराखास, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्नवत् प्रदर्शित है:-

-:चौहद्दी भूखण्ड विक्रीशुदा:-

पूरब	:-	7.50 मीटर चौड़ी रोड
पश्चिम	:-	भूखण्ड सं0-डी-246 व डी-245 व डी-244
उत्तर	:-	भूखण्ड सं0-डी-264
दक्षिण	:-	भूखण्ड सं0-डी-267

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Anuradha Shukla.

विक्रय मूल्य प्राप्ति का विवरण

1. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग रू0 27,22,000/- बजरिये चेक सं0-251982, दिनांक-26.11.2020, एच0डी0एफ0 सी0 बैंक लि0, जारी द्वारा एल0आई0सी0 हाउसिंग फाइनेन्स लि0, लखनऊ द्वारा प्राप्त किया।
2. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग रू0 1,00,000/- बजरिये चेक सं0-003631, दिनांक-23.10.2020, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त किया।
3. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग रू0 8,07,500/- बजरिये चेक सं0-003645, दिनांक-26.11.2020, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त किया।
4. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग रू0 500/- बजरिये चेक सं0-003647, दिनांक-30.11.2020, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त किया।

यह कि यदि विक्रय विलेख मे वर्णित विक्रय प्रतिफल की घनराशि का चेक/ड्राफ्ट अनादृत हो जाता है तो यह विक्रय विलेख शून्य होगा।

इस विक्रय-विलेख का मसविदा विक्रेता व क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है, और इसके अतिरिक्त विक्रेता व क्रेता ने कोई तथ्य छिपाया नहीं है जिसे कि विक्रेता व क्रेता ने स्वयं पढ़ लिया है और जिसको कि दोनों ने भलीभांति समझ लिया है परन्तु यदि विक्रय-विलेख के कोई भी तथ्य किसी भी समय मिथ्या पाये जाते है, तो ऐसी स्थिति में मसविदाकर्ता एवं टंकणकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः प्रमाण के तौर पर खूब सोच व समझकर, दुरुस्त होशो हवास में बिना किसी जोर दबाव के, प्रसन्न चित्त, मानसिक संतुलन की स्वस्थ

For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Ashwatha Shukla

आवेदन सं०: 202000821061581

विक्रय पत्र

बही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 14388

वर्ष: 2020

प्रतिफल- 3630000 स्टाम्प शुल्क- 245000 बाजारी मूल्य - 1800000 पंजीकरण शुल्क - 36300 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 36360

श्रीमती अनुराधा शुक्ला,
पत्नी श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: सिविल लाइन्स उन्नाव

Anuradha Shukla



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 01/12/2020 एवं 02:47:53 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कंचन मिश्रा -
उप निबंधक :सदर द्वितीय
लखनऊ
01/12/2020

श्रीमती रूपम श्रीवास्तव -
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

अवस्था में यह विक्रय-विलेख पढ़कर व समझकर निम्न गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता-क्रेता ने अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये, ताकि सनद रहे व प्रमाण स्वरूप काम आवे।

लखनऊ

दिनांक :-28.11.2020

गवाहान :-

1.

हस्ताक्षर

अमरेन्द्र त्रिवेदी




पुत्र-श्री आनंद शंकर त्रिवेदी

नि०-319, सिविल लाइन,

उन्नाव, उ०प्र०-209801


ह० विक्रेता/प्रथम पक्ष
For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.




Authorized Signatory

2.

हस्ताक्षर




रिंकेश यादव


पुत्र-स्व० सियाराम यादव


पता-कबीरपुर गोसाईगंज, लखनऊ।

ह० क्रेता/द्वितीय पक्ष





टाईपकर्ता :-

(शिव)

प्रारूपकर्ता :-


(महेन्द्र मोहन मिश्रा)

एडवोकेट

कृष्णा टावर, चेम्बर नं०-4 व 5

मो०नं०-9559985554

आवेदन सं०: 202000821061581

वर्ष: 2020

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 14388

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्रा०लि० द० डाय० मधुरेश श्रीवास्तव
के द्वारा वीरेन्द्र कुमार यादव, पुत्र श्री रामनिवास

निवासी: गोमती नगर लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

Virendra




श्रीमती अनुराधा शुक्ला, पत्नी श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी

निवासी: सिविल लाइन्स उत्राव

व्यवसाय: नौकरी

Anuradha Shukla




ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री अमरेन्द्र त्रिवेदी, पुत्र श्री आनन्द शंकर त्रिवेदी

निवासी: सिविल लाइन्स उत्राव

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री रिकेश यादव, पुत्र श्री स्व० सियाराम यादव

निवासी: कबीरपुर गोसाईगंज लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

रिकेश



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Kanchan

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए है ।

टिप्पणी :

कंचन मिश्रा -
उप निबंधक : सदर द्वितीय
लखनऊ


श्रीमती रूपम श्रीवास्तव -
निबंधक लिपिक

Map

भूखण्ड सं०-डी-265 व डी-266 रकबा 2420 वर्गफिट अर्थात 224.907 वर्गमीटर, खसरा सं०-218 व 219, स्थित- ग्राम- माधवग्रीन्स विस्तार राजस्व ग्राम-तेराखास, परगना, तहसील दे जिला- लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्नवत् प्रदर्शित है:-

-: चौहद्दी भूखण्ड विक्रीशुदा:-

पूरब	:-	7.50 मीटर चौड़ी रोड
पश्चिम	:-	भूखण्ड सं०-डी-246 व डी-245 व डी-244
उत्तर	:-	भूखण्ड सं०-डी-264
दक्षिण	:-	भूखण्ड सं०-डी-267



For Arsha Infra Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory


ह० विक्रेता

Anuradha Shukla

ह० क्रेता

आवेदन सं०: 202000821061581

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 24319 के पृष्ठ 225 से 244 तक क्रमांक 14388 पर दिनांक 01/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कंचन मिश्रा -
उप निबंधक : सदर द्वितीय
लखनऊ
01/12/2020

प्रिंट करें

